

Delhi Police Public School

Class III Holiday Homework



Dear Parents,

There is no doubt that vacations are the most appropriate time for students to refresh and rejuvenate themselves to showcase their performance more enthusiastically. Children have ample energy which needs to be channelized in the right direction to get the best out of them. Keeping this in mind the holiday homework has been designed to make them more observant and confident.

Let's share some tips to make this period a fruitful and happy period for them.

- Have at least two meals together with your children. Teach them the importance and hard work of the farmers and ask them not to waste their food.
- Nurture your child's interest – be it art, music, dance or anything else.
- Let him/her pursue a hobby of his /her own choice.
- Please train your child to become independent in his daily chores.
- Let him/her keep the house clean-clear the toys, books or crafts after he/she has finished playing with it.
- Be polite while speaking and talk softly.

WE WISH YOU HAPPY SUMMER VACATION.



ENGLISH

1. On an A-4 size sheet , write a poem or a paragraph on either topic:

- a) If I could fly**
- b) Happiest day of my life**

Also draw a picture related to the topic to make it more attractive.

2. Make a separate notebook and write half page a day neatly. Write at least 10 pages.

3. ‘ The world belongs to those who read.’



- Read any favourite book of your choice.**

- Make a colourful book cover of your favourite book. Colour and decorate to make it beautiful.

हिन्दी ग्रीष्मकालीन अवकाश गृहकार्य

- 1) सुलेख लिखें।(कुल 5)
- 2) हल्के फुल्के व्यायाम करें।
- 3) घर में छोटे छोटे कामों में अपने माता पिता की मदद करें।
- 4) किसी उद्यान या वाटिका में जाओ ,जहाँ शांति हो। आँख मूँदकर आसपास की प्रकृति को महसूस करो।सोचो तुम प्रकृति से क्या क्या नई बातें सीख सकते हो?
A-3/4 शीट पर प्राकृतिक दृश्य को दर्शाते हुए(चित्र बनाकर)वाक्यों में वर्णन करो।

खोजपरक

5)भारत के महान वैज्ञानिकों एवं खोजों के बारे में जानकारी लेकर ऐलबम तैयार करो। जैसे:- मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर आदि।

6) पता करो कि निम्नलिखित चीज़ें किससे बनती हैं?

- * गुड़ गन्ने का रस
- * पनीर _____
- * चिप्स _____
- * बिस्कुट _____
- * चीनी _____
- * चाऊमीन/मैगी _____
- * घी _____
- * दही/पापड़ _____

** अपनी पसंद की कोई एक recipe अपनी मम्मी की मदद से बनाना सीखें।

(non- fire cooking)

EVS


1) Take the help of an adult to cut vegetables such as ladyfinger, potato, capsicum etc. Dip them in different colours & press them on a piece of paper to create various designs. You can use this paper to wrap gifts or make envelopes, or you can use a few designs on a chart paper for a display in your class.

2) Take an outline map of INDIA. Choose any five states. Now Collect pictures of the dishes that are most common in each state. Stick the pictures in the respective places on the map. Write the name of the DISH below each picture.

MATHS PROJECT

Section A

Do any two of the following neatly:



- 1. Make a clock using a paper plate or waste cardboard with Roman Numerals I to XII on it and movable needles using ice cream sticks.**
- 2. Make a Rangoli pattern with geometrical shapes on A-4 sheet**

OR

Make a colourful chart on even and odd numbers on A-3 sheet.

Refer to the internet where ever necessary.

Section B

- 1. Write tables from 2 to 12 on A-4 sheets. Also learn them.**
- 2. Do Unit- 5 Patterns in the text book.**